

भारत के राजपत्र
{भाग-II, खण्ड-3 के उप खण्ड (i) } में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
अधिसूचना

नई दिल्ली, जून, 2019

सा.का.नि., केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949, (1949 का 66) की धारा 18 के उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पायनियर संवर्ग (ग्रुप ख वर्दीधारी पद) भर्ती नियम 2014 में संशोधन करती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पायनियर संवर्ग(ग्रुप 'ख' वर्दीधारी पदों) भर्ती संशोधन नियम, 2019 है।
- (2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पायनियर संवर्ग(ग्रुप 'ख' वर्दीधारी पद) भर्ती नियम, 2014 में :-

(ए) नियम-4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

“4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।”

(बी) अनुसूची में-

(ए) (i) स्तंभ (4) में, निरीक्षक(ओवरसीयर) (सिविल) पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, इससे संबंधित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर- 7
(44900-142400 रुपये)”

(ii) स्तंभ 11 में, “पदोन्नति द्वारा” शीर्षक के अधीन “टिप्पण” मद 2 (ए)(ii) के अंतर्गत वेतन बैंड 2, रुपये 9300-34800 के साथ ग्रेड वेतन रुपये 4200 की प्रविष्टि के लिए; स्तर-6 (35400 से 112400 रुपये) की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(ii) स्तंभ (11) में, “टिप्पण” शीर्षक के अधीन मद (4) के लिए

(ए) "1 जनवरी, 2006" की प्रविष्टि के स्थान पर " 1 जनवरी, 2016" और "6ठे केन्द्रीय वेतन आयोग की प्रविष्टि के लिए, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(ब) स्तंभ (4) में, निरीक्षक(ओवरसियर)(इलेक्ट्रिकल) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, इससे संबंधित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

"स्तर-7(44900 से 142400/- रूपये)"

(ii) स्तंभ 11 में, "प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा" शीर्षक के अधीन "टिप्पण" मद 2 (ए)(ii) के अंतर्गत वेतन बैंड 2, रूपये 9300-34800 के साथ ग्रेड वेतन रूपये 4200 की प्रविष्टि के लिए ; स्तर-6 (35400 से 112400 रूपये) की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(ii) स्तंभ (11) में, "टिप्पण" शीर्षक के मद (4) के अंतर्गत, "1 जनवरी, 2006"की प्रविष्टि के लिए, " 1 जनवरी, 2016" और "6ठे केन्द्रीय वेतन आयोग की प्रविष्टि के लिए, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(एफ. सं. एम.पांच-1/2019-स्था-7वां सीपीसी)

(ललित कपूर)

उप सचिव(कार्मिक-II)

टिप्पण :- अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(ई), तारीख 8 सितंबर, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खण्ड -3, उप खण्ड (i) में तारीख 08 सितंबर 2014 को मूल नियम प्रकाशित किए गए।